

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(कोल इन्डिया लिमिटेड का एक अंग)

BHARAT COKING COAL LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Limited)

कार्मिक निदेशालय

PERSONNEL DIRECTORATE

जीवनी - संबंधी टिप्पणी

BIOGRAPHICAL NOTE

कोयला भवन

KOYLA BHAWAN

कुलनाम

Surname

मध्य

Middle

प्रथम

First

1. नाम

Name

2. कर्मचारी संख्या

Staff No.

3. जन्म तिथि

Date of Birth

:

दिन

Day

महिना

Month

वर्ष

Year

4. लिंग

Sex

:

पुरुष / महिला

Male / Female

5. वैवाहिक स्थिति

Marital status

:

विवाहित / अविवाहित

(1) Married / Unmarried

(2) Name of the Spouse

6. बच्चों की संख्या उनके जन्म तिथि सहित संख्या
No. of children with years of birth No.
alongwith names

:

जन्म तिथि

Date of birth

7. परिवार नियोजन के उपाय - बन्ध्याकरण

Family planning Measures, Sterilisation

:

8. धर्म

Religion

:

9. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के हैं
Whether SC / ST

:

10. पिता का नाम

Father's Name

:

11. स्थायी पता

Permanent Address

:

12. कोल इन्डिया लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :
Date of Joining CIL

लिये गए कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिये :-
For taken over employees/ executives

अ - कोकिंग/ नन-कोकिंग कोल में राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत अनुदान उद्देश्य हेतु खान / कम्पनी से लिये गए कर्मचारी से की प्रारम्भिक बहाली की तिथि।
Date of initial appointment under the Mine/Company from which the employee taken over under the Coking/Non - Coking Coal Nationalisation Act. for the purpose of Gratuity.

ब - कम्पनी का नाम जिससे सेवा / सर्विस ली गई :
Name of the company from which service taken

13. वर्तमान पदनाम/वैतनमान :
Present Designation / Grade

14. विभाग :
Discipline

15. पदस्थापन का स्थान :
Place of posting

16. बोयलाखान भविष्य निधि संख्या :
C.M.P.F. No.

17. शैक्षिक योग्यताएं (डिग्री/डिप्लोमा तथा इससे ऊपर) :
Educational Qualification (Degree/Diploma & above).

डिग्री / डिप्लोमा Degree / diploma	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of specialisation	उत्तीर्ण होने का वर्ष Year of passing	श्रेणी तथा प्राप्तांक का प्रतिशत Divn.% of marks obtained

18. व्यावसायिक निकायों की सदस्यता
Membership of professional Bodies

नाम : वर्ष
Name : Year

19. अनुभव
Experience
ए - बी० सी० सी० एल० में कार्यभार ग्रहण के पहले :
Before joining BCCL

अवधि Period	पदग्रहण Post held	नियोक्ता का नाम तथा पता Name & address of employer
से From	तक To	

बी-बी0 सी0 सी0 एल0 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद
B. After joining BCCL

स्तर Level	प्रवेश की तिथि Date of entry	पदस्थान का स्थान Place of posting	खदान के भीतर/खुली खदान UG / OC	किस प्रकार का कार्य करते हैं Type of job handled
ई0-१ E-1				
ई0-२ E-2				
ई0-३ E-3				
ई0-४ E-4				
ई0-५ E-5				
ई0-६ E-6				
ई0-७ E-7				
ई0-८ E-8				
ई0-९ E-9				

* कोलियरी/कार्यशाला आदि का नाम
* Name of Colliery / workshop etc.

स-विशेषीकरण (विशेषतः लॉन्गवॉल, यन्त्रीकरण आदि)

C. Specialisation (Particularly Longwall, Mechanisation etc.)

व्यावसाय
Trade

कितने वर्ष तक
No of years

द-विशेष उपलब्धि

D. Special Achievement

[I] व्यावसायिक
(i) Professional

.....
.....
.....
.....

[II] अन्य
(ii) Others

.....
.....
.....
.....

20. प्रशिक्षण
Training

अ- कार्यक्रम में भाग लिया गया (एक सप्ताह तथा इससे अधिक)
a. Programme attended (One week and above)

शीर्षक Title	अवधि Duration	वर्ष Year	देश Country
(I) कम्पनी में In Company	:		
(II) कम्पनी के बाहर External	:		
(III) विदेश Abroad	:		
21. सामान्य स्वास्थ्य General Health	:		
अ- रक्त समूह Blood Group	:		
ब- बृहद आपरेशन/ चिकित्सालय में भर्ती होना Major Operation / Hospitalisation	:		

वर्ष
Year

प्रकार
Type

स- पिछली बार की गई स्वास्थ्य की जांच
Medical check up done Last

दिन
Day

महिना
Month

वर्ष
Year

पाई गई कोई बड़ी बीमारी (नाम बताएं)
Any major ailment detected (Indicate the name)

द- प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएं सही हैं। यदि सूचनाएं गलत / अनुचित पाई जाएं तो मेरी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
Certified that the informations furnished above are correct. In case the informations are found to be wrong / Incorrect my services will be laible for termination .

स्थान
Place

हस्ताक्षर
Signature